



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1946 (श०)

(सं० पटना 14) पटना, मंगलवार, 7 जनवरी 2025

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

अधिसूचना

22 नवम्बर 2024

सं०सं० 6/निदे० (थ० वि० यो०)-21-02/2020-7088—अनुसूचित जनजाति (थारू जनजाति सहित) एवं पश्चिम चम्पारण जिला क्षेत्र के विकास हेतु जिला स्तर पर समेकित थरूहट विकास अभिकरण के गठन की स्वीकृति हेतु विभागीय संकल्प संख्या-346 दिनांक-24.02.2009 निर्गत है, जिसके अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बजट प्रावधान के अनुसार स्वीकृति दी जाती है।

2. प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, बिहार, पटना ने पत्रांक-707 दिनांक-23.09.2024 के अनुसार समेकित थरूहट विकास अभिकरण की योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त विभाग के पत्रांक-एम-4-26/2015-1431/वि० दिनांक-25.02.2020 के संदर्भ में मुख्य शीर्ष-8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00-, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, समूह शीर्ष-लोक लेखा-प्राप्ति/व्यय अंतर्गत उपशीर्ष-0072-समेकित थरूहट विकास अभिकरण खोलने में सहमति प्रदान की है, जिसका विपत्रकोड संख्या-8448-00-120-0072, विस्तृत शीर्ष-0001-प्राप्ति एवं 0002-व्यय है।

3. CFMS प्रणाली में समेकित थरूहट विकास अभिकरण के नाम से PL खाता सं०-WCH PLA009 वित्तीय वर्ष 2020-21 से ही संधारित है तथा उसमें (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक) व्यय एवं प्राप्ति की प्रक्रिया जारी है।

तदालोक में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र निर्गत कराने के निमित्त समेकित थरूहट विकास अभिकरण के लिए स्वीकृत राशि के व्यय हेतु निर्गत संकल्प संख्या-346 दिनांक-24.02.2009 के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों को अधिसूचित की जाती है।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दिवेश सेहरा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण)14-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>